



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 137) पटना, शुक्रवार, 7 फरवरी 2014

सं0 2/एम० 7-14/08 -367
शिक्षा विभाग

संकल्प

29 जनवरी 2014

विषय :-राजकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पदों का उत्क्रमण तथा वरीय प्राध्यापक एवं वरीय व्याख्याता के पदों का सृजन।

1. (क) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0-12122/98, 8147/99 एवं 8672/02 एवं एल0 पी0 ए0 सं0-65/03 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0 एल0 पी0 सं0-6450/03 एवं सिविल अपील सं0-4466/03 में दिए गये आदेश के अनुपालन में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3521 दिनांक 11.04.77 के आलोक में संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 द्वारा अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के पुरुष एवं महिला शिक्षकों को दिनांक 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित किया गया।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0-10091/06 तथा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0-14678/06 में दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11.2007 द्वारा संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 को निरस्त किया गया।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0-418/07 दायर की गयी। एल0 पी0 ए0 सं0-418/07 एवं अन्य समरूप एल0 पी0 ए0 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.2010 को पारित आदेश में एल0पी0ए0 को खारिज किया गया।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार राज्य राजकीय शिक्षक संघ द्वारा एस0 एल0 पी0 (सी0) सं0-26675-26676/10 दायर किया गया। एस0 एल0 पी0 (सी0) सं0-26675-26676/10 से उद्भूत सिविल अपील संख्या-8226-8227/12 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.11.2012 को पारित आदेश में एल0 पी0 ए0 एवं सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 21.05.2010 एवं दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश को खारिज करते हुए अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11.2007 को अभिखण्डित किया गया तथा संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 को (Upheld) सही ठहराते हुए इसके अनुरूप कार्य आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012 को पारित आदेश के आलोक में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संकल्प संख्या-687 दिनांक 02.04.2013 द्वारा अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11.2007 को विलोपित करते हुए संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 को पुनर्जीवित किया गया है।

2. परिणामी लाभ देने हेतु बिहार शिक्षा सेवा के स्वीकृत पदों की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02.1999 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की व्यवस्था दिनांक 01.01.1996 से लागू करते हुए आवश्यकता आधारित पदों के विरुद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02.1999 के आलोक में अधिसूचना संख्या-671 दिनांक 10.11.2001 तथा अधिसूचना संख्या-802 दिनांक 29.06.2004 द्वारा आवश्यकता आधारित प्रोन्नति के पदों को स्वीकृत किया गया। ये पद संविलियन के पूर्व की स्थिति के आलोक में थी। दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पदों का वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

3. माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 निर्गत के पश्चात् संकल्प संख्या-07 दिनांक 03.01.2007 द्वारा अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के 2465 पदों को दिनांक 01.01.1977 से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में उत्क्रमित किया गया, परंतु प्रोन्नति हेतु पद सोपान का निर्धारण नहीं किया गया।

(ii) 2465 पदों को बिहार शिक्षा सेवा में उत्क्रमित किए जाने से मूल कोटि के पदों में कई गुणा वृद्धि हुई, परंतु प्रोन्नति के पदों में वृद्धि नहीं की गयी थी।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में अवर शिक्षा सेवा से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित शिक्षकों को परिणामी लाभ देने हेतु पदों के उत्क्रमण/सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखा गया। प्रशासी पदवर्ग समिति के दिनांक 09.12.2013 के निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 21.01.2014 की बैठक में स्वीकृति दी गयी।

5. बिहार शिक्षा सेवा के निम्नांकित पदों का उत्क्रमण एवं नये पदों का सृजन निम्न प्रकार से होगा :-

क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	पे० बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	राजकीय विद्यालय के प्राचार्य	68	PB -4	8700/-
2	राजकीय विद्यालय के उप प्राचार्य	136	PB -4	8700/-
3	राजकीय विद्यालयों के वरीय प्राध्यापक	253	PB -4	8700/-
4	राजकीय विद्यालयों के वरीय व्याख्याता	199	PB - 3	7600/-
5	राजकीय विद्यालयों के वरीय व्याख्याता	97	PB - 3	6600/-

6. ये पद सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त होते जायेंगे।

7. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 137-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>